



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1977/माघ 19, 1898

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1977/MAGHA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th February, 1977

S.O. 143(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Bank of Baroda, establishes, with effect from the 8th February, 1977 a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Sultanpur in the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 4-77/76-AC (I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1977

का० प्रा० 142(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, बैंक

आफ बड़ौदा के अनुसंधान पर 8 फरवरी, 1977 से उत्तर प्रदेश राज्य में "सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिसे की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एक० 4-77/76 ए० सी० (1)]

S.O. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda, by which Sultanpur Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Sultanpur as the place where Sultanpur Kshetriya Gramin Bank shall have its head office

[No. F. 4-77/76-AC (II)]

क्र० प्र० 143(प्र).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक आफ बड़ौदा के परामर्श से सुल्तानपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एक० 4-77/76 ए० सी० (2)]

New Delhi, the 8th February, 1977

S.O. 144(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-77/76-AC (III)]

K. P. A. MENON, Addl Secy.

क्र० प्र० 144(प्र).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उक्त उप खंड के प्रयोजन के लिये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एक० 4-77/76 ए० सी० (3)]

के० पि० ए० मेनन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 8th February 1977

S.O. 145(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section 6 of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur

[DBOD No. 148/INCL/C 102-76]

J. C. LUTHER,
Deputy Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिचालन विकास विभाग)

प्रधिसूचना

बम्बई 8 फरवरी, 1977

का प्रा० 145 (ख).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1943 का 2) को धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के प्र.सूचन में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निवेश देता है, कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर।

[डी बी ओ डी सं० 148 आई०एन०सी०एल०/सी० 102/76]

जे० सी० लूथर,

उप-गवर्नर।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा अभियन्तक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

